

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक  
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

प्रश्नपुस्तिका सिरीज  
Question Booklet Series

**A**

## LL.B (Second Semester) Examination, January-2022

**LL.B202**

### SPECIAL CONTRACT (CONTRACT-II)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
  2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
  3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
  4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
  5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
  6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
  7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।



1. The specific contract should be :  
 (A) Written  
 (B) Oral  
 (C) Illegal  
 (D) None of the above
2. A contract by which on a party Promise the other party to save from loss which may be caused either by the conduct of the promisor or by the conduct of any other person called as :  
 (A) Contract of Guarantee  
 (B) Contract of Indemnity  
 (C) Contract of Bailment  
 (D) Contract of Pledge
3. In which section of Indian Contract Act defines a contract of Indemnity :  
 (A) Section-122  
 (B) Section-123  
 (C) Section-124  
 (D) Section-125
4. The indemnity holder is not entitled to :  
 (A) All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise applies  
 (B) All cost that he may be compelled to bear in defending any suit  
 (C) All sums that he may have paid under the terms of any compromise of such suit  
 (D) Damages for liability incurred which is not absolute

1. विशिष्ट संविदाएँ होनी चाहिए :  
 (A) लिखित  
 (B) मौखिक  
 (C) अविधिक  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार को स्वयं बचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का बचन देता है कहलाती है :  
 (A) प्रत्याभूति की संविदा  
 (B) क्षतिपूर्ति की संविदा  
 (C) उपनिधान की संविदा  
 (D) गिरवी की संविदा
3. संविदा अधिनियम की किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा है :  
 (A) धारा-122  
 (B) धारा-123  
 (C) धारा-124  
 (D) धारा-125
4. क्षतिपूर्ति धारी को निम्नलिखित अधिकार नहीं होता है :  
 (A) सब रकम नुकसानी जो क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा से सम्बन्धित वाद में उसे देना पड़ा हो  
 (B) सभी खर्चे जो वाद चलाने या बचाव में उसे देना पड़ा है  
 (C) सभी रकम जिसे उसने ऐसे वाद के शर्त के रूप में चुकाया हो  
 (D) ऐसे दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति जो अभी पूर्णतया उत्पन्न नहीं हुई है

5. Which of the following Contracts of insurances is not a contract of Indemnity ?  
 (A) Contract of life Insurance  
 (B) Contract of Property Insurance  
 (C) Contract of Group Insurance  
 (D) Contract of Market insurance
6. In a contract of Indemnity must be:  
 (A) Four parties  
 (B) Implied consideration  
 (C) Lawful consideration and object  
 (D) Agreement without Considered
7. The Nature of the contract of Indemnity is :  
 (A) Contingent Contract  
 (B) Quasi Contract  
 (C) Wagering Contract  
 (D) Void Contract
8. In a contract of indemnity there are:  
 (A) 2 Parties and 2 Contract  
 (B) 3 Parties and 2 Contract  
 (C) 2 Parties and 1 Contract  
 (D) 3 Parties and 3 Contract
9. Who is protected under the Contract of guarantee :  
 (A) Guarantor  
 (B) Creditor  
 (C) Debtor  
 (D) Third person
5. निम्नलिखित बीमा संविदाओं में से कौन सी क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है ?  
 (A) जीवन बीमा संविदा  
 (B) सम्पत्ति बीमा संविदा  
 (C) सामूहिक संविदा  
 (D) बाजार बीमा संविदा
6. एक क्षतिपूर्ति की संविदा में होनी चाहिए :  
 (A) चार पक्षकार  
 (B) विवक्षित प्रतिफल  
 (C) विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य  
 (D) करार बिना प्रतिफल के
7. क्षतिपूर्ति की संविदा की प्रकृति होती है :  
 (A) समाश्रित संविदा  
 (B) संविदा कल्प  
 (C) बाजी संविदा  
 (D) शून्य संविदा
8. एक क्षतिपूर्ति की संविदा में होते हैं :  
 (A) 2 पक्षकार और 2 संविदा  
 (B) 3 पक्षकार और 2 संविदा  
 (C) 2 पक्षकार और 1 संविदा  
 (D) 3 पक्षकार और 3 संविदा
9. एक प्रत्याभूति की संविदा में कौन संरक्षित होता है :  
 (A) प्रतिभू  
 (B) ऋण दाता  
 (C) ऋणी  
 (D) तीसरा पक्षकार

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. The person in respect of whose default, the guarantee is given is called :</p> <p>(A) Principal surety<br/>(B) Principal bailee<br/>(C) Principal creditor<br/>(D) Principal debtor</p> <p>11. The guarantee of Single transaction is :</p> <p>(A) Valid<br/>(B) Invalid<br/>(C) Void<br/>(D) Voidable</p> <p>12. A contracts to indemnify by B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees :</p> <p>(A) This is contract of indemnity<br/>(B) This is not a valid contract<br/>(C) This is contract of guarantee<br/>(D) None of the above</p> <p>13. A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Called :</p> <p>(A) Contract of indemnity<br/>(B) Contract of Guarantee<br/>(C) Contract of Bailment<br/>(D) Contract of pledge</p> | <p>10. एक व्यक्ति जिसके त्रुटि हेतु प्रत्याभूति की गयी है कहलाता है :</p> <p>(A) मूल प्रतिभू<br/>(B) मूल उपनिधाता<br/>(C) मूल ऋण दाता<br/>(D) मूल ऋणी</p> <p>11. एक संव्यवहार के लिये दी गयी प्रतिभूति है :</p> <p>(A) वैद्य<br/>(B) अविधिक<br/>(C) शून्य<br/>(D) शून्यकरणीय</p> <p>12. (क) (ख) को उस कार्यवाही से हुई हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है, जो कार्यवाही (ग),(ख) के विरुद्ध 200 रु० के सम्बन्ध में चलाएगा यह संविधा है :</p> <p>(A) क्षतिपूर्ति की संविदा है<br/>(B) यह एक विधिक संविदा नहीं है<br/>(C) यह प्रत्याभूति की संविदा है<br/>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>13. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके बचन का पालन करने अथवा उसके दायित्व का निर्वाहन करने की संविदा कहलाती है :</p> <p>(A) क्षतिपूर्ति की संविदा<br/>(B) प्रत्याभूति की संविदा<br/>(C) उपनिधान की संविदा<br/>(D) गिरवी की संविदा</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14. Contract of Guarantee is a :</p> <p>(A) Bipartite</p> <p>(B) Tripartite</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>                                              | <p>14. प्रत्याभूति की संविदा है :</p> <p>(A) द्विपक्षीय</p> <p>(B) तृपक्षीय</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                                                        |
| <p>15. Surety is a person who :</p> <p>(A) Who gives the guarantee</p> <p>(B) To whom the guarantee is given</p> <p>(C) Above (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>               | <p>15. प्रतिभू वह व्यक्ति होता है :</p> <p>(A) जो प्रत्याभूति देता है</p> <p>(B) जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है</p> <p>(C) उपरोक्त (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                |
| <p>16. Liability of surety is :</p> <p>(A) Independent</p> <p>(B) Conditional on default</p> <p>(C) Above (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>                                   | <p>16. प्रतिभू का दायित्व होता है :</p> <p>(A) स्वतंत्र</p> <p>(B) व्यतिक्रम की दशा में</p> <p>(C) उपरोक्त (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                                          |
| <p>17. A continuing Guarantee applies to:</p> <p>(A) Any number of transaction</p> <p>(B) A specific transaction</p> <p>(C) A simple transaction</p> <p>(D) A series of transactions</p> | <p>17. चलत प्रत्याभूति लागू होती है :</p> <p>(A) संम्व्यवहार के किसी क्रम पर</p> <p>(B) एक विशिष्ट संम्व्यवहार पर</p> <p>(C) एक सामान्य संम्व्यवहार पर</p> <p>(D) एक संम्व्यवहारों की श्रृंखला पर</p> |
| <p>18. A surety can be discharged from his liability by :</p> <p>(A) By revocation</p> <p>(B) By the death</p> <p>(C) By alteration</p> <p>(D) All of the above</p>                      | <p>18. एक प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो सकता है :</p> <p>(A) प्रतिसंहरण द्वारा</p> <p>(B) मृत्यु हो जाने से</p> <p>(C) परिवर्तन द्वारा</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p>                             |

19. Right of subrogation means :
- (A) The surety will step in to the shoes of the another
  - (B) He is entitled to the benefit of every security which the creditor has
  - (C) The surety can claim indemnity from the principle debtor
  - (D) All of the above
20. On whose request the surety should give the guarantee :
- (A) Creditor
  - (B) Debtor
  - (C) Banker
  - (D) None of the above
21. The person whose loss is to be made good is called the :
- (A) Indemnifier
  - (B) Indemnity holder
  - (C) Creditor
  - (D) Surety
22. The contract of Guarantee should be :
- (A) Only written
  - (B) Only Oral
  - (C) Written or Oral
  - (D) Implied

19. प्रत्यासन के अधिकार का अर्थ है :
- (A) प्रतिभू अन्य के जगह पर आ जाता है
  - (B) प्रतिभूति के उन सभी लाभों का हकदार हो जाता है जो लेनदार को प्राप्त थे
  - (C) प्रतिभू मूल ऋणी से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है
  - (D) उपरोक्त सभी
20. किसके निवेदन पर प्रतिभू प्रत्याभूति प्रदान करता है :
- (A) लेनदार
  - (B) ऋणग्रहीता
  - (C) बैंकर
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
21. एक व्यक्ति जिसकी हानि भी लाभप्रद होती है को कहा जाता है :
- (A) क्षतिपूर्तिदाता
  - (B) क्षतिपूर्तिधारक
  - (C) लेनदार
  - (D) प्रतिभू
22. प्रत्याभूति की संविदा होनी चाहिये :
- (A) केवल लिखित
  - (B) केवल मौखिक
  - (C) लिखित अथवा मौखिक
  - (D) विवक्षित

23. Section 142 of the contract Act deal with :
- (A) Guarantee obtained by free consent
- (B) Guarantee obtained by misrepresentation
- (C) Guarantee obtained by fraud
- (D) None of the above
24. As per section -143 of the contract Act guarantee obtain by the creditor by concealment is :
- (A) Valid
- (B) Invalid
- (C) Void
- (D) Voidable
25. The term 'Bailment' means :
- (A) A delivery of a thing or goods by one person to another person for some purpose
- (B) Delivery of goods without cost for welfare of public
- (C) Delivery of goods free of cost
- (D) None of above
26. In which section of Contract Act Bailment define :
- (A) 146
- (B) 147
- (C) 148
- (D) 149
23. संविदा अधिनियम की धारा-142 संम्बन्धित है :
- (A) स्वतन्त्र सहमति से प्राप्त प्रत्याभूति
- (B) दुष्प्रपदेशन द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति
- (C) कपट द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
24. संविदा अधिनियम की धारा-143 के अनुसार लेनदार द्वारा छिपाव से प्राप्त प्रत्याभूति है :
- (A) विधिक
- (B) अविधिक
- (C) शून्य
- (D) शून्यकरणीय
25. 'उपनिधान' शब्द का अर्थ है :
- (A) किसी वस्तु या माल का विशेष उद्देश्य से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को परिदान
- (B) जनहित में माल का परिदान
- (C) मुफ्त में माल का परिदान
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
26. संविदा अधिनियम की किस धारा में उपनिधान को परिभाषित किया गया है :
- (A) 146
- (B) 147
- (C) 148
- (D) 149

27. The person who during the contract of bailment deliver goods called :
- (A) Bailor  
(B) Bailee  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above
28. A hires a carriage of B. the carriage is unsafe though B is not aware of it and A is injured :
- (A) B is not responsible to A for the injury  
(B) B is responsible to A for the injury  
(C) No one is responsible to each other  
(D) None of the above
29. The word 'Bailment' is derived from French word 'bailer' which means :
- (A) To deliver  
(B) To handing over  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above
30. If the goods are lent free to the Bailee for his use it is known as :
- (A) Gratuitous Bailment  
(B) Non-Gratuitous Bailment  
(C) Reward Bailor for  
(D) None of the above
27. वह व्यक्ति जो उपनिधान की संविदा में माल का परिदान करता है उसे कहा जाता है :
- (A) उपनिधाता  
(B) उपनिहिति  
(C) उपरोक्त (A) और (B)  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
28. 'क', 'ख' की गाड़ी किराये पर लेता है गाड़ी असुरक्षित है यद्यपि 'ख' को इसकी जानकारी नहीं थी और 'क' को चोट लग जाती है :
- (A) 'ख', 'क' क्षति के प्रति उत्तरदायी नहीं है  
(B) 'ख', 'क' के क्षति के प्रति उत्तरदायी है  
(C) दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
29. उपनिधान शब्द फ्रेंच शब्द 'बेलर' से बना है जिसका अर्थ होता है :
- (A) परिदानित करना  
(B) कब्जा देना  
(C) उपरोक्त (A) और (B)  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
30. यदि माल का परिदान मुफ्त में उपनिहिति के प्रयोग के लिए किया गया है, तो उसे जाना जाता है :
- (A) अनुग्राहिक उपनिधाता  
(B) अननुग्राहिक उपनिधाता  
(C) सशुल्क उपनिधाता  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>31. The Contract of insurance is infact Contract of :<br/>         (A) Indemnity Contract<br/>         (B) Necessity Contract<br/>         (C) Urgency<br/>         (D) None of above</p> <p>32. The person to whom goods are delivered according Bailment is called :<br/>         (A) Bailor<br/>         (B) Bailee<br/>         (C) Both (A) and (B)<br/>         (D) None of the above</p> <p>33. The Bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called:<br/>         (A) Special Bailment<br/>         (B) Indemnity Contract<br/>         (C) Pledge<br/>         (D) Name of above</p> <p>34. In the Contract of pledge bailor is called :<br/>         (A) Debtor<br/>         (B) Pownor<br/>         (C) Pownee<br/>         (D) All of the above</p> <p>35. Section-178 of Indian Contract Act deals with :<br/>         (A) Pledge by mercantile Agent<br/>         (B) Pledge by Trust Agent<br/>         (C) Pledge by International Agent<br/>         (D) All of the above</p> | <p>31. बीमा की संविदा वास्तव में है :<br/>         (A) क्षतिपूर्ति संविदा<br/>         (B) आवश्यकता की संविदा<br/>         (C) आपात स्थिति<br/>         (D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>32. एक व्यक्ति जिसे उपनिधान के अनुरूप माल का परिदान किया गया है कहलाता है :<br/>         (A) उपनिधाता<br/>         (B) उपनिहिती<br/>         (C) उपरोक्त (A) और (B)<br/>         (D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>33. जब ऋण अथवा वचन पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल का परिदान किया जाता है तब उसे कहा जाता है :<br/>         (A) विशेष उपनिधान<br/>         (B) क्षतिपूर्ति की संविदा<br/>         (C) गिरवी<br/>         (D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> <p>34. गिरवी की संविदा में उपनिधाता को कहा जाता है :<br/>         (A) ऋणी<br/>         (B) गिरवीदाता<br/>         (C) गिरवीधारी<br/>         (D) उपरोक्त सभी</p> <p>35. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा-178 संदर्भित है :<br/>         (A) वाणिज्यिक एजेन्ट द्वारा गिरवी<br/>         (B) न्यास एजेन्ट द्वारा गिरवी<br/>         (C) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्ट द्वारा गिरवी<br/>         (D) उपरोक्त सभी</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

36. In the Pledge, the general property or ownership in goods :
- Tranferred to the pawner
  - Can not transferred to the pawnee
  - Continues in the pownor
  - None of the above
37. Which among the following is not a example bailment :
- Herring of a Bank locker and storing things in it
  - Delivery of a railway receipt for delivery of goods
  - accidental car parkes by insurer to garage
  - None of the above
38. Which kinds of property is subject matter of pledge :
- Personal Property
  - Movable Property
  - Immovable Property
  - All of the above
39. A person who finds good belonging to another and takes them in to his custody called :
- Bailor
  - Bailee
  - Surety
  - Pownor
36. गिरवी में माल अथवा सम्पत्ति का स्वामित्व :
- गिरवीग्रहीता में अन्तरित हो जाता है
  - गिरवीग्रहीता में अन्तरित नहीं होता
  - गिरवीदाता में बना रहता है
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
37. निम्नलिखित में से कौन एक उपनिधान का उदाहरण नहीं है :
- बैंक लाकर किराये पर लेकर उसमें सामान रखना
  - सामान के परिदान हेतु रेलवे की रसीद प्रदान करना
  - बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटना वाली कार को गैरेज में रखना
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
38. निम्नलिखित में से किस प्रकार की सम्पत्ति गिरवी की विषय-वस्तु हो सकती है :
- व्यक्तिगत सम्पत्ति
  - चल सम्पत्ति
  - अचल सम्पत्ति
  - उपरोक्त सभी
39. एक व्यक्ति जो दूसरे का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है, कहलाता है :
- उपनिधाता
  - उपनिहिती
  - प्रतिभू
  - गिरवीदाता

40. If the bailee mixes the goods of the bailor with his own goods without the consent of the bailor then :
- (A) Bailee liable for pay the expenses for separation of goods and damages  
(B) The bailee is not liable  
(C) No liability for compensation  
(D) None of the above
41. Lien means :
- (A) Charge  
(B) Particular status  
(C) A guarantee  
(D) A legal claim to hold property as security
42. 'A' Leaves a cow in the custody of 'B' to be taken care of the cow has a calf :
- (A) 'B' is not bound to deliver the calf but the cow to 'A'  
(B) 'B' is bound to deliver the calf but not the cow to 'A'  
(C) 'B' is bound to deliver calf and cow to 'A'  
(D) None of above
43. Suit by bailor or bailee against wrong-doer is dealt under which sections of the following in Indian contract Act :
- (A) Section-179  
(B) Section-180  
(C) Section-181  
(D) Section-182
40. यदि उपनिहित ने बिना उपनिधाता के सहमति के उसके माल को अपने माल में मिला लिया गया है तो :
- (A) वह माल को अलग करने में आये खर्च एवं नुकसानी में लिय दायित्वाधीन है  
(B) उपनिहित दायित्वाधीन नहीं है  
(C) यहाँ प्रतिकर का दायित्व नहीं है  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
41. धारणाधिकार का अर्थ है :
- (A) प्रभार  
(B) विशिष्ट प्रास्थिति  
(C) प्रत्याभूति  
(D) प्रतिभूति के रूप में माल को रोके रखने का विधिक अधिकार
42. 'क' ने 'ख' के पास एक गाय देखभाल के लिए रखा गाय ने एक बछड़ा दिया :
- (A) 'ब' 'अ' को केवल गाय देने के लिए बाध्य है बछड़ा नहीं  
(B) 'ब' 'अ' को केवल बछड़ा देने के लिए बाध्य है गाय नहीं  
(C) 'ब' 'अ' को गाय के साथ बछड़ा भी देने के लिए बाध्य है  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
43. भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में उपनिधाता अथवा उपनिहिती द्वारा दोषी के खिलाफ वाद दायर करने का अधिकार है :
- (A) धारा -179  
(B) धारा -180  
(C) धारा -181  
(D) धारा -182

44. The extent of the liability under indemnity depends on :
- (A) The nature and term of Contract
  - (B) Case own facts and circumstance
  - (C) Both (A) and (B)
  - (D) None of the above
45. As per section -182 of Indian contract Act an Agent is one :
- (A) Who is employed by another
  - (B) To do any act for another
  - (C) To represent another in dealing with third person
  - (D) All of the above
46. A sub-Agent is a person :
- (A) Who work under the main Agent
  - (B) Who work on behalf of main Agent
  - (C) Employed and acting under the control of original Agent in agency
  - (D) None of the above
47. Substuted Agent is :
- (A) Principal is agent
  - (B) Agent's agent
  - (C) Sub agent
  - (D) All of above
44. क्षतिपूर्ति की संविदा में दायित्वों का विस्तार निर्भर करता है :
- (A) संविदा की प्रकृति और शर्तों पर
  - (B) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर
  - (C) उपरोक्त (A) और (B)
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
45. संविदा अधिनियम की धारा -182 के अनुसार एक एजेंट वह है जो :
- (A) दूसरे के द्वारा नियोजित है
  - (B) जो दूसरे का कार्य कर रहा है
  - (C) किसी तीसरे व्यक्ति के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के लिये सम्व्यवहार करता है
  - (D) उपरोक्त सभी
46. एक व्यक्ति उप-अभिकर्ता है यदि वह :
- (A) जो मूल अभिकर्ता के अधीन कार्य करता है
  - (B) जो मूल अभिकर्ता के लिए कार्य करता है
  - (C) जो अभिकरण में मूल अभिकर्ता द्वारा नियुक्त और कार्यरत है
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
47. प्रतिस्थापित अभिकर्ता है :
- (A) मालिक का अभिकर्ता
  - (B) अभिकर्ता का अभिकर्ता
  - (C) उप-अभिकर्ता
  - (D) उपरोक्त सभी

48. Ratification of authority means :
- (A) Delegation of Power
  - (B) Confirmation to make valid or sanction an act which is already done
  - (C) Subrogation
  - (D) None of the above

49. The person for whom agents do any act or to represent whom is called :
- (A) Managing Director
  - (B) Director
  - (C) Employer
  - (D) Principal

50. Section-183 of Indian Contract Act provided that any person who is of the age of majority and who is sound mind may employ as a :
- (A) Servant
  - (B) A labour
  - (C) An Agent
  - (D) Officer

48. प्राधिकार का अनुसर्मथन का अर्थ है :

- (A) शक्तियों का प्रत्यायोजन
- (B) पूर्व में किए गये कार्यों को वैधता देना अथवा कार्य अनुमत करना
- (C) प्रत्यासन
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

49. वह व्यक्ति जिसके लिये अथवा जिसका प्रतिनिधित्व अभिकर्ता करता है कहलाता है :

- (A) प्रबंध निदेशक
- (B) निदेशक
- (C) नियोजक
- (D) मालिक

50. धारा-183 संविदा अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि वह व्यक्ति जो वयस्क तथा स्वस्थयित है, नियोजित हो सकता है :

- (A) सेवक के रूप में
- (B) श्रमिक के रूप में
- (C) अभिकर्ता के रूप में
- (D) अधिकारी के रूप में

- |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>51. An unsound person can not become :</p> <p>(A) An agent</p> <p>(B) Principal</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>                                                                     | <p>51. अस्वस्थयित व्यक्ति नहीं हो सकता :</p> <p>(A) एक अभिकर्ता</p> <p>(B) एक मालिक</p> <p>(C) उपरोक्त (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                                                                            |
| <p>52. As per section-185 of contract Act Consideration is :</p> <p>(A) Necessary to create Agency</p> <p>(B) Not Necessary to create Agency</p> <p>(C) Depend upon type of Agency</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>52. संविदा अधिनियम की धारा-185 के अनुसार प्रतिफल :</p> <p>(A) अभिकरण बनाने के लिये आवश्यक है</p> <p>(B) अभिकरण बनाने के लिये आवश्यक नहीं है</p> <p>(C) अभिकरण के प्रकार पर निर्भर करता है</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>53. In spirit of section -189 of contract Act agents authority in an emergency is :</p> <p>(A) Limited</p> <p>(B) Unlimited for all necessary act</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p>   | <p>53. संविदा अधिनियम की धारा-189 के भावना अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार आपातकाल में है :</p> <p>(A) सीमित</p> <p>(B) सभी आवश्यक कार्यों हेतु असीमित</p> <p>(C) उपरोक्त (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>            |
| <p>54. A principal is responsible for all the act of his agent which is called:</p> <p>(A) Unlimited liability</p> <p>(B) Original liability</p> <p>(C) Private liability</p> <p>(D) Vicarious liability</p>        | <p>54. मालिक अपने अभिकर्ता द्वारा किए गये सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है इसे कहा जाता है :</p> <p>(A) असीमित दायित्व</p> <p>(B) मौलिक दायित्व</p> <p>(C) व्यक्तिगत दायित्व</p> <p>(D) प्रतिनिधिक दायित्व</p>                  |

55. An agent bound to render proper account on demand of :  
 (A) Principal  
 (B) Sub-Agent  
 (C) Creditor  
 (D) Debtor
56. In case of difficult an agent is bound to communicate with :  
 (A) Sub-Agent  
 (B) Third Person  
 (C) Creditor  
 (D) Principal
57. An agency can be terminated by :  
 (A) The Principal revoking his authority  
 (B) Expiry of time  
 (C) The completion of agency business  
 (D) All of the above
58. The creditor may file a suit at his option only against the surety in which case it was upheld :  
 (A) Kasiba Vs Sripat  
 (B) Ram Narain Vs Hari Singh  
 (C) Shanker Lal Vs Bhura lal  
 (D) None of the above are true
55. एक अभिकर्ता माँगने पर उचित लेखा प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन होता है :  
 (A) मालिक के  
 (B) उप-अभिकर्ता के  
 (C) देनदार के  
 (D) ऋणी के
56. अभिकर्ता कठिनाई आने पर संसूचित करने को दायित्वाधीन है :  
 (A) उप-अभिकर्ता को  
 (B) तृतीय व्यक्ति को  
 (C) ऋणदाता को  
 (D) मालिक को
57. एक अभिकरण का समापन हो जाता है :  
 (A) जब मालिक द्वारा अपना प्राधिकार वापस ले लिया जाता है  
 (B) समय के समाप्त हो जाने पर  
 (C) अभिकरण का व्यवसाय पूर्ण हो जाने पर  
 (D) उपरोक्त सभी सत्य हैं
58. ऋण देने वाला प्रतिभू के खिलाफ वाद दायर करने का विकल्प अपना सकता है, यह कथन किस मामले में किया गया :  
 (A) कसीबा बनाम श्रीपत  
 (B) राम नारायन बनाम हरी सिंह  
 (C) शंकर लाल बनाम भूरा लाल  
 (D) उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है

59. A minor can be an :  
 (A) Surety  
 (B) Partner  
 (C) Voter  
 (D) None of the above are True
60. Public Laws includes :  
 (A) Contract Law  
 (B) Constitutional Law  
 (C) Administrative Law  
 (D) All of above
61. An agency is irrevocable :  
 (A) Where the authority of agency is one coupled with interest  
 (B) Where the agent has incurred personal liability  
 (C) Both (A) and (B)  
 (D) None of the above
62. An agency comes to an end by :  
 (A) Performance of the contract  
 (B) Agreement between principal and agent  
 (C) Renunciation of has authority by the agent  
 (D) All of the above
63. An agency may also arise by :  
 (A) Estopped  
 (B) Necessity  
 (C) Ratification  
 (D) All of the above

59. एक अल्पवयस्क हो सकता है :  
 (A) प्रतिभू  
 (B) भागीदार  
 (C) मतदाता  
 (D) उपरोक्त सभी असत्य हैं
60. लोक विधियों में सम्मिलित हैं :  
 (A) संविदा विधि  
 (B) संविधानिक विधि  
 (C) प्रशासनिक विधि  
 (D) उपरोक्त सभी
61. एक अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं हो सकता:  
 (A) जब अभिकरण प्राधिकार हित सहित एक इकाई हो जाता है  
 (B) जब अभिकर्ता ने व्यक्तिगत दायित्व अर्जित कर लिया है  
 (C) उपरोक्त दोनों (A) और (B)  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
62. एक अभिकरण का अन्त हो सकता है :  
 (A) संविदा की पूर्णता पर  
 (B) मालिक और अभिकर्ता के बीच संविदा करके  
 (C) अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार के वापसी की घोषणा से  
 (D) उपरोक्त सभी
63. एक अभिकरण का गठन हो सकता है :  
 (A) विवन्धन द्वारा  
 (B) आवश्यकता द्वारा  
 (C) अनुसर्मथन द्वारा  
 (D) उपरोक्त सभी द्वारा

64. Who has the primary liability in agency ?

- (A) Principal
- (B) Agent
- (C) Bailor
- (D) Bailee

65. An agent who is appointed to perform a particular act, called :

- (A) General agent
- (B) Universal agent
- (C) Special agent
- (D) Commercial agent

66. An agent who has authority to do all acts connected with a particular trade called :

- (A) Commission agent
- (B) General agent
- (C) Del Credere agent
- (D) Broker

67. Which one of the following is not a duty of an agent ?

- (A) Duty to exercise care and skill
- (B) Duty to take commission
- (C) Duty to account
- (D) Duty to avoid conflict of interest

64. एक अभिकरण में प्राथमिक दायित्व किसका होता है :

- (A) मालिक का
- (B) अभिकर्ता का
- (C) उपनिधाता का
- (D) उपनिहिती का

65. एक अभिकर्ता जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिये नियोजित किया जाता है, कहलाता है :

- (A) सामान्य अभिकर्ता
- (B) सार्वभौम अभिकर्ता
- (C) विशिष्ट अभिकर्ता
- (D) वाणिज्यिक अभिकर्ता

66. एक ऐसा अभिकर्ता जिसे एक विशिष्ट व्यवसाय से सभी कार्य निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कहलाता है :

- (A) कमीशन एजेन्ट
- (B) जनरल एजेन्ट
- (C) डेल क्रेडर एजेन्ट
- (D) ब्रोकर

67. निम्नलिखित में से एक अभिकर्ता का दायित्व नहीं है ?

- (A) सावधानी एवं कौशल के प्रयोग का दायित्व
- (B) कमीशन लेने का दायित्व
- (C) लेखे का दायित्व
- (D) हितों में विरोध को टालने का दायित्व

68. Which of the following is not a right of the principal ?

- (A) Right to recover damage
- (B) Right to demand account and to claim secret profit made
- (C) Right to remuneration
- (D) To resist agents claim for indemnity

69. Which of the following is not a type of commercial agent :

- (A) Banker
- (B) Special agent
- (C) Broker
- (D) Commission agent

70. Which of the following is not a non-mercantile agent :

- (A) Attorneys
- (B) Solicitors
- (C) Factor
- (D) Insurance agent

71. The term "Partnership is defined in which section of Indian partnership act -1932 :

- (A) Section- 2
- (B) Section- 3
- (C) Section- 4
- (D) Section- 5

68. निम्नलिखित में से कौन एक मालिक का अधिकार नहीं है ?

- (A) क्षति वसूली का अधिकार
- (B) लेखा मांगने और गोपनीय लाभ का दावा करने का अधिकार
- (C) पारिश्रमिक का अधिकार
- (D) अभिकर्ता के क्षतिपूर्ति के दावे का विरोध करने का अधिकार

69. निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक अभिकर्ता का प्रकार नहीं है :

- (A) बैंकर
- (B) विशेष अभिकर्ता
- (C) ब्रोकर
- (D) कमीशन एजेन्ट

70. निम्नलिखित में से कौन एक अवाणिज्यिक अभिकर्ता नहीं है :

- (A) अटार्नी
- (B) सोलिसिटर
- (C) फैक्टर
- (D) बीमा अभिकर्ता

71. 'भागीदारी' शब्द की परिभाषा भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 किस धारा में की गयी है :

- (A) धारा- 2
- (B) धारा- 3
- (C) धारा- 4
- (D) धारा- 5

72. Persons who have entered in to partnership with one another are collectively called as :

- (A) Firm
- (B) Partners
- (C) Directors
- (D) None of the above

73. Partnership is a subject in the :

- (A) Union List
- (B) State List
- (C) Concurrent List
- (D) None of the above

74. An action for the indemnity can be brought against a partner :

- (A) By the firm
- (B) By any partner on behalf of the firm
- (C) By a partner in his individual capacity
- (D) Either (A) or (B)

75. The historic case laying down the test for determining the existence of partnership is :

- (A) Wangh Vs Carver
- (B) Blorean Vs Fell
- (C) Cox Vs Hickman
- (D) None of the above

72. वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ भागीदारी में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक साथ कहते हैं :

- (A) फर्म
- (B) भागीदार
- (C) निदेशकगण
- (D) उपरोक्त से कोई नहीं

73. भागीदारी एक विषय है :

- (A) संघ सूची में
- (B) राज्य सूची में
- (C) समवर्ती सूची में
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

74. एक भागीदार के खिलाफ क्षतिपूर्ति की कार्यवाही शुरू की जा सकती है :

- (A) फर्म द्वारा
- (B) फर्म के लिए किसी भागीदार के तरफ से
- (C) किसी भागीदार द्वारा उसके व्यक्तिगत हैसियत से
- (D) या तो (A) अथवा (B)

75. वह ऐतिहासिक वाद जिसमें भागीदार के अस्तित्व को परखा गया था, है :

- (A) वॉग बनाम कारवर
- (B) ब्लोरेम बनाम फेल
- (C) काक्स बनाम हिकमैन
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. The relation of partnership arises from contract not from status, has been prescribed under :
- (A) Section – 4 of Partnership Act
  - (B) Section – 5 of Partnership Act
  - (C) Section – 6 of Partnership Act
  - (D) Section – 7 of Partnership Act
77. A property of Partner becomes the property of firm :
- (A) When it is used for the business of the partnership
  - (B) When the property owned by partners
  - (C) When there is an agreement express or implied
  - (D) More of the above
78. The property of firm includes :
- (A) All property brought in to the stock the firm
  - (B) All property purchased in the course of business of the firm
  - (C) Both (A) and (B)
  - (D) None of the above
79. The sale of good Act deal with property :
- (A) Immovable
  - (B) Movable
  - (C) Specific
  - (D) All above

76. भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उत्पन्न होता है प्रास्थिति से नहीं यह उपबन्धित किया गया है:
- (A) धारा –4 भागीदारी अधिनियम में
  - (B) धारा –5 भागीदारी अधिनियम में
  - (C) धारा –6 भागीदारी अधिनियम में
  - (D) धारा –7 भागीदारी अधिनियम में
77. कब एक भागीदार की सम्पत्ति फर्म की सम्पत्ति हो जाती है :
- (A) जब वह भागीदारी व्यवसाय में प्रयोग की जाती है
  - (B) जब वह किसी भागीदार के स्वामित्व में आ जाती है
  - (C) जब इस संदर्भ में कोई स्पष्ट या विवक्षित सहमति होती है
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
78. फर्म की सम्पत्ति में सम्मिलित है :
- (A) सभी सम्पत्तियाँ जो फर्म के स्टॉक के अन्तर्गत है
  - (B) सभी सम्पत्तियाँ जो फर्म के व्यवसाय के दौरान खरीदी गयी है
  - (C) उपरोक्त (A) और (B) दोनों
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
79. माल विक्रय अधिनियम निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राविधान करता है :
- (A) अचल सम्पत्ति
  - (B) चल सम्पत्ति
  - (C) विशिष्ट सम्पत्ति
  - (D) उपरोक्त सभी

- |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>80. Goods identified at the time of contract of sale is called :</p> <p>(A) Specific goods</p> <p>(B) Ascertained goods</p> <p>(C) Clear goods</p> <p>(D) Above (A) and (B)</p>                                          | <p>80. विक्रय की संविदा में यदि किसी माल को चिन्हित किया गया है तो वह माल कहलाता है:</p> <p>(A) विशिष्ट माल</p> <p>(B) वांछित माल</p> <p>(C) स्पष्ट माल</p> <p>(D) उपरोक्त (A) और (B)</p>                          |
| <p>81. "Let the buyer beware" is the Concept of :</p> <p>(A) Unfair trade Practice</p> <p>(B) Caveat venditor</p> <p>(C) Caveat emptor</p> <p>(D) None of the above</p>                                                     | <p>81. 'क्रेता को सावधान' होना चाहिए सिद्धान्त है :</p> <p>(A) अनुचित व्यापार व्यवहार</p> <p>(B) कैवियट वेन्डीटर</p> <p>(C) कैवियट इम्पटर</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                                   |
| <p>82. Parties involved in a Contract of sale called :</p> <p>(A) Customer and salesman</p> <p>(B) Seller and buyer</p> <p>(C) Customer and supplier</p> <p>(D) All of the above</p>                                        | <p>82. माल विक्रय की संविदा में संलग्न पक्षकारों को कहा जाता है :</p> <p>(A) ग्राहक और माल बेचने वाला</p> <p>(B) बेचने वाला और खरीददार</p> <p>(C) ग्राहक और अपूर्तिकर्ता</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p>                |
| <p>83. It is standard rule that risk follows:</p> <p>(A) Seller</p> <p>(B) Buyer</p> <p>(C) Possession</p> <p>(D) Property</p>                                                                                              | <p>83. यह स्थापित नियम है कि (जोखिम) या खतरा निम्नलिखित को होता है :</p> <p>(A) विक्रेता</p> <p>(B) क्रेता</p> <p>(C) कब्जा</p> <p>(D) सम्पत्ति</p>                                                                |
| <p>84. An agreement to sell the transfer of property in goods from the seller to buyer take place :</p> <p>(A) At the end of Contract</p> <p>(B) Immediately</p> <p>(C) In the future date</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>84. एक विक्रय की संविदा में माल की सम्पत्ति का अन्तरण विक्रेता से क्रेता को होता है :</p> <p>(A) संविदा के समापन पर</p> <p>(B) तत्काल</p> <p>(C) भविष्य में किसी तिथि पर</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

85. Which of the following is not a subject matter in a sale of goods act ?  
 (A) Trade mark  
 (B) Money  
 (C) Electricity  
 (D) Water
86. The consideration in a contract of sale must be only :  
 (A) Goods  
 (B) Movable only  
 (C) Price  
 (D) Purchase
87. Which of followings meaning is no one gives what they do not have :  
 (A) Caveat emptor  
 (B) Caveat venditor  
 (C) Nemo date quod non habet  
 (D) None of above
88. Baldry Vs Marshal is a leading case relating to :  
 (A) Fitness of buyer  
 (B) Fitness of seller  
 (C) Consent by Froud  
 (D) Quality of goods
89. When did the sale of goods act come in to force :  
 (A) 01 March 1982  
 (B) 01 April 1972  
 (C) 01 May 1951  
 (D) 01 July 1930
85. निम्नलिखित में से कौन माल विक्रय अधिनियम की विषय वस्तु नहीं है ?  
 (A) ट्रेड मार्क  
 (B) रुपया  
 (C) बिजली  
 (D) पानी
86. विक्रय की संविदा में प्रतिफल होना चाहिये केवल :  
 (A) माल  
 (B) जंगम केवल  
 (C) कीमत  
 (D) खरीद
87. निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कोई व्यक्ति वह वस्तु नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है :  
 (A) कैवियेट एम्प्टर  
 (B) कैवियेट वेन्डिटर  
 (C) नेमो डेट कोड नान हैबेट  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
88. बाल्द्री बनाम मार्शल का मामला एक निर्देशक वाद है :  
 (A) क्रेता के समर्थता के  
 (B) विक्रेता के समर्थता है  
 (C) कपट द्वारा ली गयी सहमति के लिए  
 (D) माल के गुणवत्ता के सम्बन्ध में
89. माल विक्रय अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ :  
 (A) 01 मार्च 1982  
 (B) 01 अप्रैल 1972  
 (C) 01 मई 1951  
 (D) 01 जुलाई 1930

- |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>90. Which section of sale of goods Act define buyer :</p> <p>(A) Section 2 (1)</p> <p>(B) Section 2 (2)</p> <p>(C) Section 2 (3)</p> <p>(D) Section 2 (4)</p>                                             | <p>90. माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा क्रेता को परिभाषित करती है :</p> <p>(A) धारा 2 (1)</p> <p>(B) धारा 2 (2)</p> <p>(C) धारा 2 (3)</p> <p>(D) धारा 2 (4)</p>                                |
| <p>91. Section -13 of the sale of goods out, 1930 deals with :</p> <p>(A) Existing goods</p> <p>(B) When condition to be treated as warranty</p> <p>(C) Sale by simple</p> <p>(D) Ascertainment of price</p> | <p>91. माल विक्रय अधिनियम की धारा-13 प्राविधानित करती है :</p> <p>(A) प्रवृत्त माल</p> <p>(B) जब शर्तें प्रत्याभूति मानी जायेगी</p> <p>(C) सामान्य विक्रय</p> <p>(D) कीमत के लिये खोजबीन</p>     |
| <p>92. Which of the following not included in goods under the sale of goods act :</p> <p>(A) Forming part of the land</p> <p>(B) Stock</p> <p>(C) Actionable claim</p> <p>(D) Crops</p>                      | <p>92. माल विक्रय अधिनियम में निम्न में से कौन माल के अन्तर्गत नहीं आता :</p> <p>(A) जमीन का उपजाऊ हिस्सा</p> <p>(B) स्टॉक</p> <p>(C) अनुयोग्य दावा</p> <p>(D) फसले</p>                          |
| <p>93. Existing goods can be classified as:</p> <p>(A) Ascertained</p> <p>(B) Generic</p> <p>(C) Both (A) And (B)</p> <p>(D) None of the above</p>                                                           | <p>93. अस्तित्व वाली वस्तु को वर्गीकृत किया जा सकता है :</p> <p>(A) जिनका पता है</p> <p>(B) मौलिक</p> <p>(C) उपरोक्त (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>                           |
| <p>94. Unascetained goods is otherwise called as :</p> <p>(A) Specific goods</p> <p>(B) Generic goods</p> <p>(C) Future goods</p> <p>(D) None of the above</p>                                               | <p>94. जिनका पता नहीं लगाया जा सकता ऐसी वस्तुएं अन्यथा कहीं जा सकती है :</p> <p>(A) विशिष्ट वस्तुएं</p> <p>(B) मौलिक वस्तुएं</p> <p>(C) भविष्य की वस्तुएं</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

95. What is the purpose behind the enactment of sale of goods Act 1930 ?

- (A) To define the law relating to sale of goods
- (B) To consolidate and amendment to law
- (C) To Consolidate, amend and define the law
- (D) To define and and amend the laws relating to the sale of goods

96. Before the enactment of sale of goods act the provision regarding sale of goods were contained in :

- (A) Indian contract Act 1872
- (B) Indian registration Act 1908
- (C) Transfer of Property Act 1882
- (D) Indian Partnership Act

97. Where a contract of sale the seller purports to effect the present sale of the future goods, called :

- (A) A contract of sale
- (B) A agreement to sell
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

95. माल विक्रय अधिनियम को पारित करने के पीछे क्या उद्देश्य था ?

- (A) माल विक्रय की विधि को परिभाषित करना
- (B) माल विक्रय के विधि को एकत्र तथा उसमें संशोधन करना
- (C) माल विक्रय विधि को संगठित संशोधित और परिभाषित करना
- (D) माल विक्रय से सम्बन्धित विधि को परिभाषित और संशोधित करना

96. माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधिनियम के पूर्व इसके प्राविधान कहाँ दिए गये थे :

- (A) भारतीय संविदा अधिनियम –1872 में
- (B) भारतीय पंजीकरण अधिनियम –1908
- (C) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम –1882
- (D) भारतीय भागीदारी अधिनियम

97. जहाँ पर एक विक्रय संविदा में विक्रेता द्वारा भविष्य की वस्तुओं को खरीदने के लिए की जाती है उसे कहा जायेगा :

- (A) विक्रय का संविदा
- (B) विक्रय का करार
- (C) उपरोक्त (A) और (B)
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

98. A contract of sale may be made :  
(A) In writing or by word of mouth  
(B) Partly in writing or partly by word of mouth  
(C) By the implied conduct of the parties  
(D) All of the above

99. Choose the most appropriate answer. Unless otherwise agreed the goods remain at seller's risk until :  
(A) The goods have been delivered to the buyer  
(B) The goods have been utilized by buyer  
(C) The price of the goods has been received by seller  
(D) The property therein has been transferred to the buyer

100. A contract of sale can be :  
(A) Absolute only  
(B) Conditional only  
(C) Absolute and conditional  
(D) Conditional only with the consent of the buyer

98. विक्रय की संविदा की जा सकती है :  
(A) लिखित या बोलकर  
(B) अंशत लिखित अथवा अंशतः बोलकर  
(C) पक्षकारों के विवक्षित आचरण द्वारा  
(D) उपरोक्त सभी तरीकों से

99. निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुने यदि अन्यथा सहमति नहीं है तब तक माल की जोखिम विक्रेता पर है जब तक कि :  
(A) जब तक क्रेता को माल सुपुर्द नहीं किया गया  
(B) जब क्रेता द्वारा माल का प्रयोग कर लिया गया है  
(C) जब माल का मूल्य विक्रेता ने प्राप्त कर लिया है  
(D) जब समाप्ति का क्रेता में अन्तरण हो गया है

100. विक्रय की संविदा हो सकती है :  
(A) पूर्ण  
(B) शर्त  
(C) पूर्ण एवं शर्त  
(D) क्रेता की सहमति से शर्त

\*\*\*\*\*

## **Rough Work / रफ कार्य**

**DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO**

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

**Note:** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.